



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 425]

No. 425]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 1983/कार्तिक 11, 1905

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 1983/KARTIKA 11, 1905

इस भाग में अलग पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1983

सा. का नि. 814(अ).—केंद्रीय सरकार लोक ऋण
अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक ऋण नियम, 1946 में
संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है,
जो इससे पहले प्रकाशित किए जा चुके हैं, जैसा कि उक्त
धारा की उप-धारा (1) के अनुसार अपेक्षित है—

1 (1) इन नियमों को लोक ऋण (संशोधन) नियम,
1983 कहा जाएगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू
होंगे ।

2. लोक ऋण नियम, 1946 में, नियम 7 घ के बाद,
निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“7ड राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांड के संबंध में नामांकन—
नियम 7क* और 7ख** के उपबन्ध आयकर अधि-
नियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 54ड की
उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) के

उप-खंड (3) के अन्तर्गत जारी राष्ट्रीय ग्रामीण
विकास बांडों (द्वारा निर्गम) के सम्बन्ध में,
यथास्थिति नामांकन, रद्दकरण या परिवर्तन के
मामले में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू
होंगे” ।

*वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की 30-7-1980 की
अधिसूचना सं. 13(30)(1)-एन.एम./59 देखिए ।

**वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की 13-1-1966 की
अधिसूचना सं. सा. का नि. 109 देखिए ।

[संख्या एफ. 5(21)-पी.डी./83]

ए. रंगाचारी, सहायक सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 1983

G.S.R. 814(E).—In exercise of the powers
conferred by section 28 of the Public Debt Act,
1944 (18 of 1944), the Central Government here-
by makes the following rules to amend the Public

Debt Rules, 1946, the same having been previously published as required by sub-section (1) of the said section, namely :—

1. (1) These rules may be called the Public Debt (Amendment) Rules, 1983.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Public Debt Rules, 1946, after rule 7D, the following rule shall be inserted, namely:—
“7E Nomination in respect of National Rural Development Bonds.—The provisions of rules 7A* and 7B** shall apply mutatis mutandis in relation to

the nomination, cancellation or variation, as the case may be, in respect of National Rural Development Bonds (Second Issue) issued under sub-clause (iii) of clause (c) of Explanation I to sub-section (1) of section 54E of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)”.

*Vide Min. of Fin. (DEA) Notification No. 13 (30) (1)-NS/59, dated 30-7-1960.

**Vide Min. of Fin. (DEA) Notification No. GSR 109, dated 13-1-1966.

[No. F. 5(21)-PD/83]

A. RANGACHARI, Jt. Secy. (Budget)